



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ़ 1945 (श10)  
(सं0 पटना 541) पटना, बुधवार, 05 जुलाई 2023

सं० 1प/सं०-01-601/2014/7213/पं०रा०  
पंचायती राज विभाग

संकल्प

28 जून 2023

विषय:— पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के फलस्वरूप विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 675 (छह सौ पचहत्तर) पदों यथा निम्नवर्गीय लिपिक-593, उच्च वर्गीय लिपिक-42, प्रधान लिपिक-31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 09 पदों के सृजन के संबंध में।

पंचायती राज विभाग के बढ़ते कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सेवा विनियमित किये जाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 का गठन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सतत् प्रशिक्षण एवं योजनाओं के समुचित अभिलेखन, पंचायत स्तरीय योजनाओं यथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली एवं सभी गाँवों में स्ट्रीट लाईट योजना, पंचायत सरकार भवन एवं सामुदायिक भवन आदि के समुचित अभिलेखन हेतु उप निदेशक पंचायत का कार्यालय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय/प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय में लिपिक पद का सृजन किया गया है।

2. पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन उप निदेशक पंचायत का कार्यालय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालयों में अनुश्रवण एवं नियंत्रण कार्य को सशक्त बनाने हेतु लिपिकीय सेवा संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों के कुल-675 (छह सौ पचहत्तर) पदों यथा निम्नवर्गीय लिपिक-593 उच्चवर्गीय लिपिक-42 प्रधान लिपिक के 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 09 पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 27.06.2023 की बैठक के मद संख्या-03 में स्वीकृत है।

3. पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों यथा उप निदेशक पंचायत का कार्यालय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय एवं मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान में पूर्व से स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	निम्नवर्गीय लिपिक	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रधान लिपिक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रमण्डलीय उप निदेशक पंचायत का कार्यालय	05	05	04	
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय	97	39	12	
3	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/ जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान	18	13	—	
कुल—		102	57	16	

4. नये पदों के सृजन के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयों यथा उप निदेशक पंचायत का कार्यालय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय में पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(i) पदनाम:- निम्नवर्गीय लिपिक (अराजपत्रित) वेतन स्तर-02

क्र०सं०	पद सृजन का आधार/ कार्यालय का नाम	स्वीकृत बल	प्रस्तावित पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (3+5)	प्रस्तावित अतिरिक्त सृजित पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय हेतु 01 पद (09 अवकाश रक्षित पद सहित)	शून्य	542	542	अनुसूची- I संलग्न
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय	97	144	47	अनुसूची- II संलग्न
3	प्रमण्डलीय उप निदेशक पंचायत का कार्यालय	05	09	04	अनुसूची- III संलग्न
कुल योग :-		102	695	593	
नोट:- 1. कुल सृजित पदों के अतिरिक्त अवकाश रक्षित पदों की संख्या-09					

(ii) पदनाम:- उच्च वर्गीय लिपिक (अराजपत्रित) वेतन स्तर-04

क्र०सं०	पद सृजन का आधार/ कार्यालय का नाम	स्वीकृत बल	प्रस्तावित पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (3+5)	प्रस्तावित अतिरिक्त सृजित पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय	39	76	37	अनुसूची- II संलग्न
2	प्रमण्डलीय उप निदेशक पंचायत का कार्यालय	13	18	05	अनुसूची- III संलग्न
कुल योग :-		52	94	42	
नोट:- प्रमण्डलीय उप निदेशक पंचायत का कार्यालय में स्वीकृत 13 पदों में से लिपिक/आशुलिपिक के 08 एवं उच्चवर्गीय लिपिक के 05 पद हैं।					

(iii) पदनाम:-प्रधान लिपिक (अराजपत्रित) वेतन स्तर-06

क्र०सं०	पद सृजन का आधार	स्वीकृत बल	प्रस्तावित पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (3+5)	प्रस्तावित अतिरिक्त सृजित पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय	12	38	26	अनुसूची- II संलग्न
2	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत का कार्यालय	04	09	05	अनुसूची- III संलग्न
कुल योग :-		16	47	31	

(iv) पदनाम:-कार्यालय अधीक्षक (अराजपत्रित) वेतन स्तर-07

क्र०सं०	पद सृजन का आधार	स्वीकृत बल	प्रस्तावित पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (3+5)	प्रस्तावित अतिरिक्त सृजित पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत का कार्यालय	—	09	09	अनुसूची- III संलग्न
कुल योग :-			09	09	

इस प्रकार नव सृजित पदों का सारांश निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	पदों की स्थिति	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित	लेवल-02	593
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित	लेवल-04	42
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित	लेवल-06	31
4	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित	लेवल-07	09
कुल :-					675 (छह सौ पचहत्तर)

3. पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के फलस्वरूप विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त सभी पदों पर कुल राशि ₹26,59,56,864/- (छब्बीस करोड़ उनसठ लाख छप्पन हजार आठ सौ चौसठ रुपये) मात्र व्यय होगा (व्यय विवरणी संलग्न अनुसूची-IV)।

4. उक्त राशि की निकासी मांग संख्या-16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के निम्नांकित बजट शीर्ष से की जायेगी:-

उप निदेशक पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय में स्वीकृत निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक के वेतनादि का भुगतान मांग संख्या-16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत “मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00 -लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष -0003-जिला पंचायत की स्थापना” मद से भुगतान किया जायेगा। इसका विपत्र कोड-16- 2515000010003 है।

(i) इस शीर्ष से जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय में निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, उप निदेशक पंचायत का कार्यालय में निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक पंचायत होंगे

तथा मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान में निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य होंगे।

(ii) अनुमानित व्यय भार की गणना वित्त विभागीय परामर्श के आधार पर की गयी है। भविष्य में पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग के प्रोन्नति के पद सोपानों के वेतन स्तर में परिवर्तन वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

आदेश से,  
मिहिर कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 541-571+300-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>